



February 04, 2026

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

To
BSE Limited
Department of Corporate Services/Listing
Phiroze Jeejeeboy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001

SYMBOL: POLICYBZR

SCRIP CODE: 543390

Sub.: Newspaper Publication of Financial Results (“Results”) for the quarter and nine months ended December 31, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith copies of newspaper clipping for publication of the Financial Results (“Results”) of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025, approved by the Board of Directors at its Meeting held on Monday, February 02, 2026, published in the following newspapers:

- Financial Express (All India editions in English language) on February 04, 2026; and
- Jansatta (Delhi and NCR edition in Hindi (vernacular) language) on February 04, 2026.

The above said disclosure will also be hosted on the website of the Company at <https://www.pbfintech.in/investor-relations/>.

You are requested to take the same on records.

Yours Sincerely,
For PB Fintech Limited

Bhasker Joshi
Company Secretary and Compliance Officer

Date: February 04, 2026
Place: Gurugram

Encl.: A/a



PB FINTECH LIMITED

Registered Office Address : Plot No. 119, Sector-44, Gurugram-122001 (Haryana)
Telephone No. : 0124-4562900, Fax : 0124-4562902 E-mail : enquiry@policybazaar.com
Website : www.pbfintech.in CIN : L51909HR2008PLC037998

TENDER NOTICE**Date: 04-02-2026**

Sealed tender under Two Bid System (Technical & Commercial) are invited from all the interested bidders

NIT No.	Tender Description	EMD (Rs.)	Start and Due Date & Time of Submission
NIT No. NPCL/FY25-26/BE/057	"Implementation of Customized Business Excellence Model"	0.75 Lac	04.02.2026 & 25.02.2026 (up to 15:00 hours)

Cost of Individual Tender Document (Incl. GST) Rs 1180/-

For other tender details and further amendment/corrigendum, please visit our website

www.noldapower.com->Procurement->Tenders

DGM (CMM)

VAXTEX COTFAB LIMITEDCIN: L51109GJ2005PLC076930
Regd. Off.: J-03 (GF TO 4TH FLOOR) TEJENDRA ARCADE, NR. GANJIFARAK MILL COMPOUND, NR. RAKHIAL CHAR RASTA, RAKHIAL, AHMEDABAD, GUJARAT, INDIA - 380023, Email Id: cs.vaxtex@gmail.com**NOTICE OF 02nd (SECOND) EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2025-2026**This is to inform that 02nd Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company has been scheduled to be held on Friday, February 27, 2026 at 04:00 p.m. through Video Conference (VC) and Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in Notice convening the EGM of the Company.

The dispatch of the notice of EGM, inter alia indicating the process and manner of remote e-voting, along with attendance slip and proxy form, has been completed on February 02, 2026, to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of beneficiaries received from the depositories in the following manner:

a. Through email to the Members who have registered their email ID;

b. Through post to other Members who have not registered their email ID.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on any or all of the businesses specified in the Notice convening the EGM of the Company (remote e-voting), through e-voting services of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The details pursuant to the Act and Rules made thereunder are as under:

a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form and whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date, i.e. Friday, February 26, 2026 ("eligible Members"), shall be entitled to exercise their right to vote by remote e-voting as well as voting to be held at EGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the EGM of the Company;

b) the remote e-voting will commence on Tuesday, February 24, 2026 at 09:00 a.m.;

c) the remote e-voting will end on Thursday, February 26, 2026 at 5:00 p.m.;

d) the remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

e) Members may note that:

• the facility for e-voting shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights at the meeting through e-voting;

• A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote at the EGM.

f) In case a person has become a Member of the Company after the dispatch of the EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Friday, February 20, 2026, may obtain the login ID and password by sending request at <https://www.evoting.nsdl.com>

g) A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.

h) In case of any queries, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Download sections of <https://www.evoting.nsdl.com>

i) The Board of Directors has appointed Mr. Akash Goel, Practicing Company Secretary as a Scrutinizer to scrutinize the voting through Remote e-voting in a fair and transparent manner.

Members may go through the Notice for the EGM for detailed process and manner on remote e-voting. Any grievances or queries of the Members of the Company, connected with the electronic voting, can be addressed to as per the details provided above.

The Notice convening the EGM and other relevant documents will be available on the website of the Company at www.vaxtexcotfabltd.com and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

By Order of the Board of Directors

For VAXTEX COTFAB LIMITED

Sd/-

(AMAY VATSALYA)

Whole Time Director

DIN: 09330694

Date: 02.02.2026

Place: Ahmedabad

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2025**

(Regulation 33 read with Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulation, 2015)

[Rs. in Lakhs except per share data]

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended			Year Ended		
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
1	Revenue from Operations	20,691.58	23,227.98	17,173.76	61,442.80	51,108.37	73,278.60			
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,372.73	4,301.68	3,279.74	11,202.64	9,981.43	14,320.02			
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,227.47	4,301.68	3,279.74	11,057.38	9,981.43	14,320.02			
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,553.40	3,205.29	3,021.39	8,384.79	8,676.73	11,830.27			
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,626.39	2,913.76	2,523.60	8,283.56	8,164.51	11,756.72			
6	Paid up Equity Share Capital	2,003.15	2,002.65	2,002.65	2,003.15	2,002.65	2,002.65			
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)									
	Basic:	12.75	16.01	15.11	41.87	43.50	59.25			
	Diluted:	12.72	15.95	15.09	41.74	43.39	59.04			

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended			Year Ended		
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
1	Revenue from Operations	19,257.04	23,264.38	17,100.74	59,463.63	50,337.76	70,826.50			
2	Profit before tax	3,123.07	4,300.20	3,424.35	10,668.07	10,078.45	14,080.39			
3	Profit after tax	2,471.88	3,202.59	3,136.84	8,227.61	8,752.63	11,685.00			
4	Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)	72.83	(291.67)	(497.79)	(101.68)	(512.22)	(74.13)			
5	Total Comprehensive Income after tax	2,544.71	2,910.92	2,639.05	8,125.93	8,240.41	11,610.87			

Note: Previous period figures have been regrouped/ re-classified, wherever necessary, to confirm to current period's classification.

The above is an extract of the detailed format of quarter and Nine Months Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Month Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website www.anupengg.com.

SCAN HERE TO READ



For India Radiators Limited

E N Rangaswami
Whole-time Director
DIN: 06463753**INDIA RADIATORS LIMITED**CIN: L27209TN1949PLC000963
Regd. Off: 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032. Tel: 044-40432210
Email: cs@indiaradiators.com Website: www.indiaradiators.com**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025**

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of India Radiators Limited ("Company") at its meeting held on Tuesday, 3rd February 2026 approved the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2025 ("results").

The results, along with the limited review report by M/s. DPV & Associates, Statutory Auditor of the Company are available on the website of the Company at <https://www.indiaradiators.com/others>, and on websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For India Radiators Limited

E N Rangaswami
Whole-time Director
DIN: 06463753

INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

CIN: L05190KA1921PLC036321

Regd. Office: First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1F, Bannerghatta Road, Bangalore - 560 029.

Telephone: +91-80-46855100 Website: www.irco.com/en-in/invest**NOTICE**

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Ingersoll-Rand (India) Limited will be held on **Thursday, February 12, 2026**, inter alia, to take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2

PB FINTECH LIMITED

CIN: L51909HR2008PLC037998

Regd. Office: Plot No. 119, Sector 44, Gurugram, Haryana - 122001

Tel.: 0124-4562900, Fax: 0124-4562907, Website: www.pbfintech.in, E-mail: complianceofficer@pbfintech.in

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in Lakhs)

Particulars	Results on Standalone Basis								Results on Consolidated Basis					
	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended		
	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited) (Restated)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited) (Restated)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited) (Restated)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited) (Restated)		
1. Total Income from Operations	5,366	4,938	3,889	14,323	10,659	15,344	177,115	161,355	129,162	473,269	346,934	497,721		
2. Net Profit/(loss) for the period/year (before Tax and exceptional items)	1,944	73	1,804	2,805	3,283	(36)	20,107	14,206	8,508	43,547	17,511	34,563		
3. Net Profit for the period/year before Tax (after exceptional items)	1,944	73	1,804	2,805	3,605	1,402	20,107	14,206	8,508	43,547	21,616	38,668		
4. Net Profit for the period/year after Tax (after exceptional items)	1,575	69	1,393	2,366	2,924	1,253	18,943	13,489	7,150	40,897	18,248	35,222		
5. Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising profit for the period/year after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	1,635	89	1,389	2,428	2,890	1,176	19,135	14,474	7,396	41,813	18,168	34,490		
6. Equity Share Capital	9,253	9,186	9,184	9,253	9,184	9,185	9,253	9,186	9,184	9,253	9,184	9,185		
7. Other equity including non-controlling interest							786,585							
8. Earnings/(loss) per share (of ₹ 2/- each)														
(a) Basic	0.34	0.01	0.31	0.52	0.65	0.28	4.11	2.94	1.57	8.91	4.03	7.75		
(b) Diluted	0.34	0.01	0.30	0.51	0.64	0.27	4.08	2.89	1.55	8.84	3.96	7.63		
	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)		

Notes:

- The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.
- These above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 2, 2026.
- During the quarter ended December 31, 2025, the Company granted 3,495,529 stock options convertibles into equal number of equity Shares of the Company of face value of Rs. 2/- each under the employee stock option scheme – 2024 and 18,782 stock options under the employee stock option scheme – ESOP Scheme 2021, as approved by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Company, to the eligible employees of the Company and its subsidiaries. Share based payment expense for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025 at standalone level is ₹1,960 lakhs and ₹6,967 lakhs, respectively and at consolidated level is ₹4,025 lakhs and ₹14,992 lakhs, respectively.

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/6/2016 dated July 5, 2016. The full format of the Quarterly/Nine months financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.pbfintech.in). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



PB Fintech Limited
Sd/-
Yashish Dahiya
Chairman and CEO

Place: Gurugram
Date: February 2, 2026

फार्म सं. आईएनसी-26
(कम्पनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से हाईकोर्ट राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विवरण
सेवीय विवरण उत्तरी क्षेत्र के सम्बन्ध
कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 की उपराया 4 और कंपनी (नियमन) नियम 2014 के नियम 30 की उपराया (5) के खंड (ए) के मापदंड में
और
इनोवेटिव इक्सीटर्नी ग्राहिक लिमिटेड, (सीन: U45200DL2011PTC225140), जिसका पंजीकृत कार्यालय 2/37, बेसमेंट अंतर्गत गोद, दीर्घाराम, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110002 के मापदंड में
..... याचिकाकर्ता
एनडीआरा जनसामान्य की सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत कंपनी के मैनेजरेंट अंग एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार की आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्यापन असाधारण आम बैठक में कंपनी को सम्बन्धित कार्यों के लिए दिल्ली राज्यांग सरकार, 16 जनवरी, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हाईकोर्ट कार्यालय" के लिए बदलने हेतु पारित किया गया।
कंपनी भी याचिक नियमानुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रसारित संस्थान से प्रसारित होने की सम्भावना है, अपने तित स्वरूप तथा विवेद के आधार के उल्लेखनीय अपवाहन द्वारा समर्पित अपनी आयोजिता नियमानुसार प्रावित प्रावित भवन के लिए 2/37, बेसमेंट अंतर्गत गोद, दीर्घाराम, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110002 के मापदंड में
..... याचिकाकर्ता
एनडीआरा जनसामान्य की सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत कंपनी के मैनेजरेंट अंग एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार की आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्यापन असाधारण आम बैठक में कंपनी को सम्बन्धित कार्यों के लिए दिल्ली राज्यांग सरकार, 16 जनवरी, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हाईकोर्ट कार्यालय" के लिए बदलने हेतु पारित किया गया।
कंपनी भी याचिक नियमानुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रसारित संस्थान से प्रसारित होने की सम्भावना है, अपने तित स्वरूप तथा विवेद के आधार के उल्लेखनीय अपवाहन द्वारा समर्पित अपनी आयोजिता नियमानुसार प्रावित प्रावित भवन के लिए 2/37, बेसमेंट अंतर्गत गोद, दीर्घाराम, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110002 के मापदंड में
..... याचिकाकर्ता
एनडीआरा जनसामान्य की सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत कंपनी के मैनेजरेंट अंग एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार की आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्यापन असाधारण आम बैठक में कंपनी को सम्बन्धित कार्यों के लिए दिल्ली राज्यांग सरकार, 16 जनवरी, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हाईकोर्ट कार्यालय" के लिए बदलने हेतु पारित किया गया।
कंपनी भी याचिक नियमानुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रसारित संस्थान से प्रसारित होने की सम्भावना है, अपने तित स्वरूप तथा विवेद के आधार के उल्लेखनीय अपवाहन द्वारा समर्पित अपनी आयोजिता नियमानुसार प्रावित प्रावित भवन के लिए 2/37, बेसमेंट अंतर्गत गोद, दीर्घाराम, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110002 के मापदंड में
..... याचिकाकर्ता
एनडीआरा जनसामान्य की सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत कंपनी के मैनेजरेंट अंग एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार की आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्यापन असाधारण आम बैठक में कंपनी को सम्बन्धित कार्यों के लिए दिल्ली राज्यांग सरकार, 16 जनवरी, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हाईकोर्ट कार्यालय" के लिए बदलने हेतु पारित किया गया।
कंपनी भी याचिक नियमानुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रसारित संस्थान से प्रसारित होने की सम्भावना है, अपने तित स्वरूप तथा विवेद के आधार के उल्लेखनीय अपवाहन द्वारा समर्पित अपनी आयोजिता नियमानुसार प्रावित प्रावित भवन के लिए 2/37, बेसमेंट अंतर्गत गोद, दीर्घाराम, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110002 के मापदंड में
..... याचिकाकर्ता
एनडीआरा जनसामान्य की सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत कंपनी के मैनेजरेंट अंग एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार की आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्यापन असाधारण आम बैठक में कंपनी को सम्बन्धित कार्यों के लिए दिल्ली राज्यांग सरकार, 16 जनवरी, 2026 को आय